



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2004/माघ 2, 1925

No. 93]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2004/MAGHA 2, 1925

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2004

का.आ. 115(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 175 तारीख 11 जनवरी, 2002 द्वारा जो भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 26 जनवरी, 2002 में प्रकाशित की गई थी, इससे उपाखंड अनुसूची में और इससे संलग्न अनुसूची में धी विनिर्दिष्ट भूमि में जिसकी माप 1318.642 हेक्टर (लगभग) या 3258.36 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और उक्त भूमि के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कोई सूचना नहीं दी गई है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 26 जनवरी, 2004 से आरम्भ होने वाले एक वर्ष की और अवधि को विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमियों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची

मनपुरा खंड

सोहागपुर क्षेत्र

जिला-शहडोल (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या-एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/पीएलजी/भूमि/278 तारीख, 21 नवम्बर, 2003) (पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1	केल्होरी	46	अनुपपुर	शहडोल	850.000	भाग
2	देवरी	46	अनुपपुर	शहडोल	342.680	भाग
3	चचाई आबाद	46	अनुपपुर	शहडोल	125.962	भाग

योग :— 1318.642 हेक्टर (लगभग) या 3258.36 (लगभग)

सीमा वर्णन

- क-ख रेखा ग्राम देवरी की सीमा पर बिन्दु "क" से आरंभ होती है और देवरी से गुजरते हुए बिन्दु "ख" पर मिलती है।
 ख-ग रेखा ग्राम केलहोरी से होते हुए बिन्दु "ग" पर मिलती है।
 ग-घ रेखा ग्राम केलहोरी, चचाई आबाद की पूर्वी सीमा के साथ होते हुए बिन्दु "घ" पर मिलती है।
 घ-क रेखा ग्राम चचाई आबाद, से गुजर कर ग्राम केलहोरी देवरी की दक्षिण सीमा के साथ होते हुए जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/20/2001-पीआरआईडब्ल्यू]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2004

S.O. 115(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 26th January, 2002 number S.O. 175 dated the 11th January, 2002, under Sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 1318.642 hectares (approximately) or 3258.36 acres (approximately) in the locality specified in the schedule appended thereto as also in the schedule hereto annexed.

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of Section 7 of the said Act has been given within a period of two years from the date of notification under sub-section (1) of Section 4 the said act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from 26th January, 2004, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands.

SCHEDULE**Manpura Block, Sohagpur Area District Shahdol (Madhya Pradesh)**

Plan No. SECL/BSP/GM(Pig.) Land 278 dated 21st November, 2003
(showing the land notified for prospecting)

Serial number	Name of village	Patwari halka number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Kellhouri	46	Anuppur	Shahdol	850.000	Part
2	Deori	46	Anuppur	Shahdol	342.680	Part
3	Chachai Abad	46	Anuppur	Shahdol	125.962	Part

Total : 1318.642 hectares (approximately) or 3258.36 acres (approximately)

Boundary Description

- A-B Line starts from point "A" on the boundary of Deori Village and passes through Deori Village and meets at point "B".
 B-C Line passes through village Kellhouri and meets at point "C".
 C-D Line passes along the Eastern boundary of villages Kellhouri, Chachai Abad and meets at point "D".
 D-A Line passes through Chachai Abad village then along the Southern boundary of village Kellhouri, Deori and meets at the starting point "A".

[F. No. 43015/20/2001-PRIW]

RAJIV SHARMA, Jt. Secy.